



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

14 कार्तिक, 1940 (श०)

संख्या- 1015 राँची, सोमवार,

5 नवम्बर, 2018 (ई०)

---

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

-----  
अधिसूचना

26 सितम्बर, 2018

**संख्या-14/जा०नि०-03-10/2015 का० 7275--** कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के विभाग के पत्रांक-12817, दिनांक 17 नवम्बर, 2012 द्वारा झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) की समेकित सूची परिचारित की गई है, जिसमें अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) के क्रमांक-11 पर हिन्दी में "केवर्त" तथा अंग्रेजी में "Kewart" अंकित है।

पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, झारखण्ड, राँची ने अपने पत्रांक-जाति-127/2018-243/पि०, दिनांक 9 जुलाई, 2018 द्वारा झारखण्ड राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची 1) के क्रमांक 11 में दर्ज "केवर्त" के रोमन लिपि के रूप में "Kewart, Kaivartta ,oa Kaibartta " अंकित किया जाना प्रतिवेदित किया है। अतः अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1)

के क्रमांक-11 में दर्ज केवर्त जाति का अंग्रेजी रूप "Kewart, Kaivartta एवं Kaibartta" के रूप में स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

इस प्रकार पत्रांक-12817, दिनांक 17 नवम्बर, 2012 द्वारा परिचारित पत्र के साथ अनुलग्न अनुसूची-1 के क्रमांक-11 पर दर्ज 'केवर्त' की अंग्रेजी "Kewart, Kaivartta एवं Kaibartta" समझा जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

के० के० खण्डेलवाल,  
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

-----